VAGHANI TECHNO-BUILD LIMITED

Registered Office: 903 & 904, 9th Floor, Krushal Commercial Tower, Ghatkopar-Mahul Road,

Chembur (West), Mumbai-400089, Maharashtra

Tel: +91 22 31008500; Email: investor@vaghanitechnobuild.com,

Website: www.vaghanitechnobuild.com;

Corporate Identification Number: L74999MH1994PLC187866;

Date: November 06, 2024

To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Sub: Open Offer by Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") (Hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 collectively referred to as "Acquirers") to acquire upto 13,57,200 (Thirteen Lakh Fifty Seven Thousand and Two Hundred) Fully paid-up Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of ₹ 11/- (Rupees Eleven only) per Equity Share aggregating upto ₹ 1,49,29,200/- (Rupees One Crore Forty Nine Lakh Twenty Nine Thousand Two and Hundred only), to the Public Shareholders of Vaghani Techno-Build Limited ("Target Company") Pursuant to and in Compliance with the Requirements of The Securities And Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") ("Offer" Or "Open Offer").

Pursuant to regulation 26(7) of the SEBI (SAST) Regulations, please find enclosed herewith copy of recommendation of Committee of Independent Directors for the Open Offer.

The recommendation of Committee of Independent Directors for the Open Offer was published today, November 6, 2024 in the following newspapers: -

Sr. No.	<u>Newspapers</u>	<u>Language</u>	Editions
1	Financial Express	English	All Editions
2	Jansatta	Hindi	All Editions
3	Pratahkal	Marathi	Mumbai Edition -
			Place of Registered office of Target Company and Stock
			Exchange at which shares of Target Company are listed

A copy of the same is also enclosed herewith.

This is for your kind reference and records.

We request you to kindly consider the attachments as good compliance and disseminate it on your website.

For Vaghani Techno-Build Limited

Mr.Rohan Mansukh Shah Chairperson of IDC DIN: 07490755 **FINANCIAL EXPRESS**



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA



Auction of Government of India Dated Securities for ₹22,000 crore on November 08, 2024

Government of India (GOI) has announced the sale (re-issue) of two dated securities: Notified amount Earmarked for Retail

Nomenclature Nominal (in ₹ Crore) Investors* (in ₹ Crore) 1. 7.02% GS 2027 7,000 350 2. 7.34% GS 2064 15,000 750 GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000

crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018. The auction will be conducted using multiple price method. The

same day and payment by successful bidders will have to be made on November 11, 2024 (Monday). For further details, please see RBI press release dated November 04,

auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on November 08, 2024 (Friday). The result will be announced on the

2024 on the RBI website - (www.rbi.org.in).

Attention Retail Investors*

(*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals)

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. Individual investors can also place bids as per the noncompetitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretaildirect.org.in). For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website (www.rbi.org.in) or FIMMDA website (www.fimmda.org).

Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration.

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"





FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED CIN: L64202MH2001PLC134147 Registered Office: 5th Floor, Paradigm 'B' Wing, Mindspace. Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India Tel: + 91 (22) 66660888, Fax: + 91 (22) 66660887 Web: https://www.firstsource.com

Email: fsl@3i-infotech.com/complianceofficer@firstsource.com POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

- NOTICE of Postal Ballot is hereby given to the Members of Firstsource Solutions Limited ('the Company'), pursuant to Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration), Rules, 2014 as amended from time to time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 3/2022 dated May 6, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") and other applicable provisions, of the Act, rules, regulations, circulars and notification, issued thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time), that the Special Resolution/(s) as set out in the Notice are proposed for consideration by the Members of the Company for passing by means of Postal Ballot by way of voting through electronic means ("remote e-voting").
- 2. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Postal Ballot Notice will be sent only by email to all those Members whose e-mail addresses are registered with their respective Depository Participants as on cutoff date of Friday, November 8, 2024. Accordingly, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes electronically. If the email addresses of the Members are not registered with the Depository Participants, Members are requested to read the instructions provided in the Notes of the Postal Ballot Notice to cast their votes electronically from their respective locations, receive the Postal Ballot Notice, login ID and password for remote e-voting. The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through remote e-voting.
- 3. The Postal Ballot Notice will also be available on Company's website, post dispatch at https://www.firstsource.com/, on the websites of the Stock Exchanges, namely, NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.
- . Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the RTA, can get the same registered and cast their votes through remote e-voting and can obtain Notice of the Postal Ballot of the Company and/ or login credentials for remote e-voting by sending scanned copies of the following documents by email to the Company's RTA's email address, fsl@3i-infotech.com:
- a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete
- Address, mobile number and email address to be registered; Self attested scan copy of the PAN Card:
- c. Self attested scan copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.
- Members holding shares in dematerialised form are requested to update their email addresses with their respective Depository Participants.

The aforesaid information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

By order of the Board of Directors

Pipeline Infrastructure Limited

CIN : LI60300MH2018PLC308292 Registered Office: Seawoods Grand Central, Tower-1, 3rd Level, C Wing - 301 to 304, Sector 40. Seawoods Railway Station, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400706, India

Phone: 022-3501 8000, Email: compliance@pipelineinfra.com, Website: www.pipelineinfra.com EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Place: Mumbai Date: November 5, 2024

Total Income from Operations'

Paid-up Equity Share Capital

11 Debt Equity Ratio (times)

Basic (in Rupees)

Diluted (in Rupees)

14 Debt Service Coverage Ratio

15 Interest Service Coverage Ratio

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)*

Total Comprehensive Income (Comprising Profit / (Loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Outstanding Redeemable Preference Shares (Refer Note 3)

12 Earning per Equity Share of face value of Rs. 10/- each

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

13 Debenture Redemption Reserve (Refer Note 4)

0% Redeemable Preference Shares

CIR/2024/48 dated May 21, 2024.

Date: November 5, 2024 Place: Navi Mumbai

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

∃ρIL

Sr Particulars

Net Worth

Pooja Nambiar Company Secretary

> Quarter ended

September

30, 2024

1,122.96

(57.32)

(57.32)

(57.32)

(57.30)

(83.82)

(8.72)

(8.72)

0.98

0.80

Amount (Rs. in Crore)

12,175.93

50.00

Unaudited

(Rs. in Crore, except per share data and ratios)

ended

September

Unaudited

1,062.33

326.41

326,41

326,41

326.28

708.96

17.10

49.65

49.65

2.05

2.12

As at March 31, 2024

Amount

(Rs. in Crore)

50.00

12,125,90

50.00

30, 2023

ended

2024

Audited

3,305.48

(239.12)

(239.12)

(239.12)

(239.06)

50.00

83.82

93.43

(36.37)

(36.37)

1.57

0.80

133.91

12,510.85

March 31,

PURVA OAK PRIVATE LIMITED

Registered Office: No.130/2, Ulsoor Road, Bengaluru-560 042, India Corporate Identification Number: U45309KA2016PTC096197 Email: purvaoak@puravankara.com Website: http://www.puravankara.com/oak

Statement of Unaudited Financial Results for the guarter and six months ended September 30, 2024

SI. No.	Particulars	ended 30.09/2024	Quarter ended 38.09.2023	Year ended 31.03.2024
		Unaudited	Unudied	Auditori
1	Total Income from Operations			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.62)	(0.03)	(1.18)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.62)	(0.03)	(1.18)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.59)	(0.03)	(1.18)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period			
200	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(4.59)	(0.03)	(1.18)
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Securities Premium a/c)	(1.72)	(13.64)	(14.74)
8	Securities Premium Account	10 12	77 -63	77
9	Net worth	(0.72)	(12.64)	(13.74)
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	21,773.45	1000000	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares			
12	Debt Equity Ratio	(55,632.72)	(0.12)	(4.05)
13	Earnings per equity share of Rs. 100 each (for continuing and discontinued operations)	~	- 3	+
.110	1 Basic	(459.00)	(3.00)	(118.00)
	2 Dikrted	(459.00)	(3.00)	(118.00)
14	Capital Redemption Reserve		63	
15	Debenture Redemption Reserve		-3	
16	Debt Service Coverage Ratio	(0.00)		(0.19)
17	Interest Service Coverage Ratio	(0.00)		(0.19)

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.puravankara.com/oak/)
- For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures are
- available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.puravankara.com/oak/). There is no impact on net profitioss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies for the quarter ended

For and on behalf of the Board of Directors of Purva Oak Private Limited

DIN: 07868503

(Rs. Lakhs)

Name: Niraj Kumar Gautam Place: Bengaluru, India Designation: Director Date: November 04, 2024



Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: 201(A) 2" Floor, A wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India - 400 051. Website: www.barodabnpparibasmf.in • Toll Free: 18002670189

NOTICE NO. 66/2024

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Scheme of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

Notice is hereby given to all the unitholders of Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund ("Scheme"), that following shall be the rate of distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of respective plan under the Scheme with Friday, November 08, 2024^a as the Record Date:

Name of the Scheme	Name of Plans/ Options	NAV per unit as on November 04, 2024 (face value per unit of ₹10/-)	Distribution per unit** (In ₹)
Baroda BNP Paribas	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10.4057	0.06
Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10.8561	0.06

for the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

*Net distribution amount will be paid to the unit holders under respective categories after deducting applicable taxes, if any.

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date shall be considered.

Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Authorised Signatory

Date: November 05, 2024 Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

VAGHANI TECHNO-BUILD LIMITED

Registered Office: 903 & 904, 9th Floor, Krushal Commercial Tower, Ghatkopar-Mahul Road, Chembur (West), Mumbai-400089, Maharashtra Tel: +91 22 31008500; Email: investor@vaghanitechnobuild.com, Website: www.vaghanitechnobuild.com; Corporate Identification Number: L74999MH1994PLC187866

Recommendations of the Committee of Independent Directors (the "IDC") of Vaghani Techno-Build Limited (the "Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations, 2011") in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company made by Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") (Hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 collectively referred to as

2	Date of Meeting	November 05, 2024
	Name of the Target Company	Vaghani Techno-Build Limited
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirers in terms of Regulations 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 13.57,200 (Thirtee Lakh Fifty Seven Thousand and Two Hundred) fully paid-up equity shares of factivation of the Target (the "Equity Shares"), representing 26% of the Voting Share Capital of the Target Company on a fully diluted basis from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹11/- (Rupees Elever only) per equity share ("Open Offer")
4	Name of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Acquirers: Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") There are no PAC(s) with the Acquirers for the purpose of the Open Offer.
5	Name of the Manager to the Offer	Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059; Tel. No.: +91 22 49730394 Email Id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance Id: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Contact Person: Sachin Prajapati/ Satej Darde
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC Members" or "Members of the IDC")	 a) Mr. Rohan Mansukh Shah (DIN: 07490755) - Chairman and Member b) Mr. Bharat Laljee Shah (DIN: 06432795) - Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	i. All IDC Members are Independent and Non -Executive directors on the Board the Target Company. ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity Shares other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as Directors of the Target Company, there are nother contracts or relationships with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/ other securities the Target Company during the: i. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA dated July 23, 2024; and ii. period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the members of the IDC have any contractual or any other relationsh with the Acquirers.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	"Not Applicable as the Acquirers are Individuals."
11		Based on the review, a) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11/- per Equity Sha is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulation 2011; b) IDC Members believe that the Offer is in line with the SEBI (SAST) Regulation 2011 and the same is fair and reasonable. However, IDC members would list o draw the attention of the shareholders that, the Equity Shares of the Targ Company are trading on BSE at a price that is higher than the Offer Price; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer visvis current share price and take an informed decision before participating the Offer.
12	Summary of reasons for recommendation	 The IDC Members have reviewed: Public Announcement ("PA") dated July 23, 2024; Detailed Public Statement ("DPS") dated July 29, 2024 and was published of July 30, 2024; Draft Letter of Offer ("DLOF") dated August 06, 2024; Letter of Offer ("LOF") dated October 28, 2024; The IDC members also noted that: The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in terms Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAS Regulations, 2011. The Offer Price is higher than the (i) negotiated price under the Share Purcha: Agreement executed on July 23, 2024, i.e. ₹ 7.50/- per Equity Share and (the price determined by the Acquirers and the Manager taking into accouvaluation parameters per Equity Share including, book value, comparability trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation shares. Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11 per equity share is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAS Regulations, 2011.
13	Disclosure of voting pattern	These recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.
11	Details of Independent Advisors, if any.	None
14		1.00

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement

is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Vaghani Techno-Build Limited

Mr. Rohan Mansukh Shah

Chairperson of IDC

DIN: 07490755

all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

CIN: L15499TN1986PLC012747

Regd.office: No.41 (49), Janakiram Colony Main Road, Janakiram Colony, Arumbakkam, Chennai - 600 106. Tel: 044-47961124 | Fax: 044-47961124 | Email: secretarial@hap.in | Website: www.hap.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (₹ in Crores except EPS)

Place: Mumbai

Date: November 05, 2024

S.No.	Particulars	Quarter ended 30" September, 2024 Unaudited	Quarter ended 30" June, 2024 Unaudited	Quarter ended 30" September, 2023 Unaudited	Half Year ended 30" September, 2024 Unaudited	Half Year ended 30" September, 2023 Unaudited	Year ended 31" March 2024 Audited
1.	Total Income from operations	2,078.72	2,377.23	1,919.52	4,455.95	4,072.39	8,012.98
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,						
0.000	Exceptional and / or Extraordinary Items)	87.50	175.58	101.26	263.08	210.33	357.87
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	87.50	175.58	101.26	263.08	210.33	357.87
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	64.32	130.54	77.57	194.86	157.73	267.27
5.	Total Comprehensive Income for the period	63.41	131.40	78.40	194.81	158.21	265.21
6.	Paid-up Equity share capital (Face value of ₹1/- per share)	22.28	22.28	22.28	22.28	22.28	22.28
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the audited Balance Sheet of previous year)	840	¥	æ	0.4	(*)	1,549.97
8.	Earnings per share (of ₹1/- each) (Not annualised):						
	a. Basic (in ₹)	2.89	5.86	3.48	8.75	7.08	12.00
	b. Diluted (in ₹)	2.89	5.86	3.48	8.75	7.08	12.00

Notes:

Place: Chennai

Date: November 04, 2024

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Listed Entity (www.hap.in)
- 2. The above unaudited financial results prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 4, 2024.

For Hatsun Agro Product Limited

C Sathyan Vice Chairman DIN: 00012439

HAP

includes fair valuation gain on Non-Convertible Debentures, measured at Fair value through profit or loss. of Rs. 90.69 Crore and of Rs. 70.18 Crore for the guarter ended September 30, 2024 and September 30,

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with BSE Limited ("Stock
- Exchange") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"). The full format of Financial Results is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company at www.pipelineinfra.com.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the

Details of Outstanding Redeemable Preference Shares (RPS) Particulars As at September 30, 2024

2023 respectively and loss of Rs. 533.82 Crore for year ended March 31, 2024.

Board of Directors at their respective meetings held on November 5, 2024.

Debenture Redemption Reserve (DRR) is not required to be created due to absence of profits available for payment of dividend. The Company has accumulated losses as at September 30, 2024. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of the Stock

5,00,00,000

Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company at www.pipelineinfra.com. This extract of Financial Results has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in the format

as prescribed in Chapter I of Master Circular bearing reference no. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/ For Pipeline Infrastructure Limited


50.00 | 5,00,00,000

Managing Director

Akhil Mehrotra

















Pune

financialexp.epapr.in

पंजीवृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001,दूरभाष सं: 011.23357171 , 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.c शाखा कार्यालय : 201-ए और 202, द्वितीय तल, मेगापोलिस बिल्डिंग, 579, एमजी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-

सेंग फाइनेंस लिमिटेड (यहाँ इसमें इसके बाद "पीएनबीएचएफएल" के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति वित प्रदर्शन अधिनियम 200 उपरात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के अंतर्गत, हमारी इंदौर शाखा जिसका कार्यालय, "201—ए और 202, द्वितीय तल, मेगापीलिस बिल्डिंग, 576

[को इसमें इसके उपरीत 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अस्थाय ||| को बाप 132) के अंतर्गत, हमारी इंदौर साखा जिसका कार्यालय, "201-ए और 202. दिवीय तत, मेगापीलिस विरिचंग, कल पंत्री पेंढ़, इंदौर सख्य प्रदेश-482001 में स्थित है, के माध्यम से मींग सूचना निर्मत की थी। जल माँग सूचना जो है वह हमारे प्राविक्त अधिकारी के माध्यम से मीच वर्णित आप सभी उधारक्ताओं / मास्टर्स को निर्मत की गई थी और ऐसा इसिरंग किया गया था वर्गीकि आपके चारों को किरता / बाजा का मुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवासन के विरामितीयों के अनुसार अभिधानकारी धरिसंपितीयों के अनुसार अभिधानकारी धरिसंपितीयों के अनुसार अभिधानकारी धरिसंपितीयों के कथा में वर्गीकृत कर दिया गया था। उस की विषयकर्तु जो है वह मुख्यन, ब्याजा इत्यादि की किरतों के मुगतान में आपके हारा की गई के विश्व का स्वाप्त की वारा 132) के अंतर्गत मी अनिवार्य वन बुकी इस मींग सूचना का यह प्रकाशन कर रहे हैं। आपको एतद्वारा वह सामेंग सूचना का प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की एकावि के भीतर धीएनसीएवएफएस को अवदान ब्याज और शुक्त के साथ निम्न तालिका में अकित राशि का मुगतान करने का निर्देश देते हैं। मुगतान करने में विष्णत होने पर पीएनसीएवएफएस जो है वह उसके अधिनियम की हारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रवासन के तहते हमी प्रतिस्त परिसंपितियों या इनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध अनिवार्य कार्यालं / उपाय करेगी, जिससे उपायक कर सहते हैं। अपका साम अधिकार के विष्णत होने पर पीएनसीएवएफएस जो है वह उसके अधिनियम की हमा प्रतिस्त विष्णत होने पर पीएनसीएवएफएस जो अधिकार के विष्णत होने पर पीएनसीएवएफएस जो हमा की उसके विष्णत होने पर पीएनसीएवएफएस हारा बदर्स अधिकार का अधिकार के प्रतिस्त विष्णत साम की की अधिकार के विष्णत की किया जाता है. उससे अंतर्गत अधिकार सम्पत्त कार्यों, प्राप्त के साथ कारों को संपूर्ण परिश्व प्रविद्य नित्र अधिकार कर साथ कारों के स्वाप्त की की साथ कारों के संपूर्ण पर साथ कारों के स्वाप्त के साथ वार्यों के संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण पर साथ कारों के संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण विष्ण साथ कारों की संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण पर साथ कारों की संपूर्ण विष्ण साथ कारों के संप समस्त लागतों, प्रमारों एवं व्ययों के साथ बकाये की संपूर्ण राशि का मुगतान कर सकते हैं / उसे चुका सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि निजी संधि द्वारा अध्या जनता से कोटेशमें व निविदा निमित्ति इरके सार्वजिनक नीलामी द्वारा प्रतिमृत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहनकृत समस्त लागतों, प्रमारों एवं व्ययों के साथ बकाये की संपूर्ण राशि का मुगता

10(10) 1 410 101	148-1, 181 1 11-41 0 81-41 17 W 1 1 14 1 141-1 0 0 13-10 MI & II W II W I				
ऋण खाता संख्या(ए)	उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ता का नाम एवं प ता	गारंटर(रॉ)	बंध ककृत	माँग सूचना	
शाखा	श्री/सुश्री नरेंद्र कुमार राठौड़ (आवेदक) एवं श्री/सुश्री मांगीलाल राठौड़		संपत्ति(याँ)	की तिथि	के अनुसार बकाया राशि
NHL/IND/0816	(सह—आवदक) आवासाय पता : 24 सिद्धावनायक, इादरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर		फ्लैट नं. ८८३, भू तल, न्याय	16.10.24	₹. 10,63,198.65
/311772 और	प्रदेश—201009, स्थाई पता : 24 सिद्धविनायक, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201009, कार्यालय का पता : प्लॉट नंबर 364 और 365 पेस लिमिटेड, सेक्टर		खंड १ जीडीए, इंदिरापुरम,	10.1024	(रुपये दस लाख
HOC/HAD/0010	अर्परा—201009, प्राचालय या पता : स्लाट नवर 364 और 365 पता लानटड, संबटर 37, गृङ्गांव, गृङ्गांव, हरियाणा—122001, बंधक संपत्ति का पता : फ्लैट नंबर 883, भू	I	तहसील और जिला गाजियांबाद,		तिरेसठ हजार एक
	तल, न्याय खंड जीडीए, इंदिरापुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद,		उत्तर प्रदेश—201009		सौ अहानबे एवं
	उत्तर प्रदेश-201009				पैंसठ पैसे मात्र)

हीं किया जाता है / उसे नहीं चुकाया जाता है, तो इस अवधि के उपराँत आप प्रतिभूत परिसंपति(याँ) को ऋणमुक्त करने के अधिकारी नहीं हांगे। इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम भारत) के अंतर्गत विक्रय पड़ा के माध्यम से अथवा किसी भी अन्य विधि से उपर्यंक्त प्रतिभत परिसंपतियों का इस्ताँतरण करने से प्रतिविधित किया जाता है।

| | स्थान : इंदौर, दिनौंक : 05.<u>11.2024</u> | हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लेट बी एवं सी, 5वां तल, ब्लॉक 1,ईस्ट किदवई नगर , नई दिल्ली -110023 सीआईएन : U74999DL2002PLC118123

<u>साइबर सुरक्षा पर आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)</u>

निविदा संदर्भ क्रमांक. IAD/2024-25/2 दिनांक 06.11.2024

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) एक अग्रणी फसल बीमा कंपनी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साइबर सुरक्षा पर आंतरिक ऑडिट के लिए आरएफपी आमंत्रित करती है।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया **एआईसी** की वेबसाइट https://www.aicofindia.com पर जाएं और इच्छुक पात्र बोलीदाता ई-टेंडरिंग पोर्टल https://aic.procure247.com/home के माध्यम से अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

इस आरएफपी नोटिस के संबंध में किसी भी अपडेट के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.aicofindia.com पर जाएं।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 28-11-2024 दोपहर 12.00 बजे तक होगी।

उप महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

नोट : किसी भी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी विज्ञापन को वरीयता दी जाएगी

NAGARJUNA AGRI- TECH LIMITED

Registered Office: 56, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad – 500082, CIN: L01119TG1987PLC007981, Tel. No.: (+91) 8977398159, Email: natl@rediffmail.com, Website: www.nagarjunaagritech

mmendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of M/s. Nagarjuna Agri-Tech Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as defined below) made by Mrs. Rachna Suman Shaw ("Acquirer") to the public shareholders of the Target

1.	Date	November 05, 2024
2.	Name of the Target Company ("TC")	Nagarjuna Agri-Tech Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer for the acquisition of up to 24,35,966 (Twenty-FoL Lakhs Thirty-Five Thousand Nine Hundred and Sixty-Six), full paid-up equity shares of the Target Company having fac value of Rs. 10./ (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares" representing 26.00% of the total paid-up equity and voting shar capital of the Target Company on a fully diluted basis (as capital of the Open Offer) of the Target Company at a price of Rs. 20./- (Rupees Twenty Only) per Equity Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Compan ("Open Offer"). The Public Announcement dated August 05, 2024, Detaile Public Statement dated August 12, 2024, the Draft Letter of Offer dated August 20, 2024 and the Letter of Offer date October 28, 2024 have been issued by M/s. VC Corporat Advisors Private Limited, being the Manager to the Open Offe on behalf of the Acquirer.
4.	Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Acquirer: Mrs. Rachna Suman Shaw PAC: There are no PACs for the purpose of this Open Offer
5.	Name of the Manager to the Offer	Name: V C Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 Reg. Office: 31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No 2C, Kolkata- 700013. SEBI Regn No.: INM000011096 Tel. No.: 033 2225 3940 Email ID: mail@vccorporate.com Website: www.vccorporate.com
6.	Members of the Committee of Independent Directors	A. Mr. Mahender Reddy Nalavola (Chairperson) b. Ms. Chanchal Kedia (Member) (Appointed w.e.f. September 04, 2024 in place of Mr. Soma Raju Kallepalli whose terr expired on September 30, 2024)
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC Members are Independent and Non-Executive Director of the Target Company; None of the IDC Members hold any equity shares of th Target Company; None of the IDC Members have any other contracts or relationship with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the equit shares/securities of the Target Company during the: a. 12 months period preceding the date of the Publi Announcement; and b. period from the date of the Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract /relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquire
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the equit shares/securities of the Acquirer.
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC Members believe that the Open Offer is fair an reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. Company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent advisor, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has taken into consideration the following for makin recommendations: a. The IDC has reviewed the Public Announcement, th Detailed Public Statement, the Draft Letter of Offer an Letter of Offer, issued by the Manager to the Open Offe on behalf of the Acquirer; b. The IDC Members are of the opinion that the Offer Pric of Rs. 20/- (Rupees Twenty Only); offered by the Acquire is in accordance with the relevant regulations prescribe
		in the SEBI (SAST) Regulations; c. The Offer Price is higher than the (i) negotiated price under the Share Purchase Agreement i.e., Rs. 10/- per Equity Share executed on August 05, 2024; and (ii) Fair Valu of the equity share of the Target Company i.e., Rs. 18.07 per Equity Share as on March 31, 2024;
		d. The Open Offer is for acquisition of publicly held Equit Shares of the Target Company. The Public Shareholder have the option to tender the equity shares or remai invested in the Target Company.
		Based on the above, the IDC is of the opinion that, as on th date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 20/- pe Equity Share offered by the Acquirer appears to be fair an reasonable and is significantly higher than the fair value pe equity share of the Target Company which is Rs. 18.07 a certified by the Registered Valuer.
		However, IDC would like to draw attention of th shareholders that the equity shares of the Targe Company are presently trading on BSE Limited at a pric that is higher than the Offer Price. The shareholders ar advised to independently evaluate the Open Offer vi current share price and take an informed decision, befor participating in the Open Offer.

Terms not defined herein carry the meaning as ascribed to them in the Letter of Offer dated October 28, 2024. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by Nagarjuna Agri-Tech Limited under the SEBI (SAST Regulations.

None

None

Details of Independent Advisors, if any

14. Any other matter(s) to be highlighted

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Nagarjuna Agri-Tech Limited

Mahender Reddy Nalavola Date: 05.11.2024 DIN: 09389493 Place: Hyderabad Chairperson, Committee of Independent Directors

पहली बिक्री सूचना दिनांक 28.10.2024 का शुद्धिपत्र पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी (सीआईआरपी के तहत) पंजीकृत कार्यालयरू एस-363, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश भाग-11, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110048

पहली नीलामी बिक्री सूचना

पॉपलर स्पिरिटस एलएलपी (सीआईआरपी के तहत) की निम्नलिखित संपत्तियां और संपदाएं जिनक भारतार राजारेज एएएल (राजाक्षणार) ये यहाँ आहे. कि तिलाविक पंचारी जोर राज्या है। जाने एलएलपीआईएनक एएएल –2211 है, नीचे दी गई तालिक में उदिलखित विवरण के अनुसार जहां है जैसा है, जो कुछ भी है और कोई सहारा नहीं के आधार पर नीलामी की जाएंगी। बिक्री निजी नीलार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	संपत्ति विवरण			पंजीव	करण की तिथि	ईएमडी राशि
1	महिंद्रा बोलेरो (DL1CAI	E9569)		C	02.12.2021	50,000
2	महिंद्रा बोलेरो (DL1CAI	E9572)		C	02.12.2021	50,000
3	अन्य संपत्तियां (एयर कं रेफ्रिजरेटर आदि सहित)	50,000				
		नीलामी	समय–सी	मा		
विवरण		क्रमांक 3 में संपत्तियों के समय—सीमा			क्रमांक 1 और 2 वाहनों के लिए नी	
निरीक्षण की तिथि		12.11.2024			12.11.2024	
ईएमडी र तिथि	ाशि जमा करने की अंतिम	13.11.2024			13.11.2024	
0 0 0	0.0					

- 1) अन्य परिसंपत्तियों के रूप में क्रमांक सं.3 में उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण आईआरपी के पास) जै नारानाचीत खरीदार विवरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। 2) ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- रमावित बीलीदाता ई.ओ.आई. (कोटेशन) के साथ डिमांड ड्राग्ट के रूप में ई.एम.डी. राशि आई.आर. पी. के पते पर जमा करेंगे, अर्थात (प्लॉट नं. डब्ल्यू.जेड.—डी.—9, गली नं. 5, महावीर एन्क्लेव. पालम
- कॉलोनी, सुलम इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के पास, नई दिल्ली-110045) 4) इच्छुक आवेदक निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करके संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर
- अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी भी समय नीलामी के किसी भी नियम व शर्तों को स्वीकार करने, रद्द करने. विस्तार करने या संशोधित करने आदि का अधिकार है। उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है। उसे किसी भी समय नीलामी रद्द करने का अधिकार है।
- तकनीकी सहायता के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें।

पंकज कुमार तिवारी **आईपी पंजीकृत संख्या**: आईबीबीआई/आईपीए–003/आईसीएआई–एन–00394/2022–2023/14278 एएफए संख्या एए३ / 14278 / 02 / 300625 / 301108 पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी के सीआईआरपी में डीम्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पता: प्लॉट नंबर डब्ल्यूजेड-डी-9, गली नंबर 5, महावीर एन्क्लेव पालम कॉलोनी, सुलम इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के पास नई दिल्ली-11004 दिनांक: 06 11 2024 इमेल: ippankajtiwari@gmail.com/+91 8826432340



ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड सीआईएन : एल७२९००डीएल२००९पीएलसी३४१९८० पंजीकृत कार्यालय : एवफिस, प्रथम तल, ए–24/9, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्टियल एस्टेट

मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, दूरभाष सं: 91-11-4084-4964, दूरमाष सं: 91-11-411-33905, ई-मेल : cs@e2enetworks.com, वेबसाइट : https://www.e2enetworks.com

अस धारण सामान्य बैठक तथा ई—मतदान जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की असांघारण सामान्य बैठक ("ईजीएम") का आयोजन बुधवार 27 नवंबर 2024 को अप. 12 30 बजे (भामास) वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, ईजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपरिथति के बिना, ईजीएम की सूचना निर्धारितानुसार व्यवसायों का लेन-देन करने हेतु किया जायेगा।

बैटक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा, अर्थात कार्यालय, एवफिस प्रथम तल, ए—24/9, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044। ईजीएम के लिए कोरम की गणना करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

कंपनी ने ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड (यानी ईमेल) के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेज दी है[ँ] जिनके ई–मेल पते कंपनी / लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास शुक्रवार 1 नवंबर 2024 के अनुसार पंजीकृत थे. जो कि सामान्य परिपन्न संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई. 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल. 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुसार है, जिनमें से नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 है जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किया गया है जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किये गये सेबी मास्टर परिपत्र सं: सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / सीआईआर / पी / 2023 / 120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 और सेबी परिपन्न सं. सेबी / एचओ / सीएफडी सीएफडी-पीओंडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (जिसे यहाँ इसमें आगे सामूहिक रूप से "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित है ईमेल के माध्यम से ईजीएम की सूचना भेजने का काम मंगलवार, 5 नवंबर, 2024 को पूर हो गया है।

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.e2enetworks.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (वेबसाइटों) यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की https://www.linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को लिंक इनटाइम द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि os e.co.in/ देखें तथा तस्त्रें निग गग ota linkinti क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन तक पहुँचें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीपी के माध्यम से अपने ई—मेल पते और बैंक खातों के विवरण सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट / पंजीकृत करें, ताकि आपके डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आपके डीमैट खाते में पैन, ई–मेल पते और बैंक खाते के विवरण जैसे केवाईसी विवरण को पंजीकृत / अपडेट किया जा सके।

दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिये अनुदेश :

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसार, समय–समय फ संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली २०१५ ("सूचीबद्धता विनियमन") वे विनियमन 44 के साथ पठित, के अनुसार सदस्यों को लिंक इनटाइम द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("दूरस्थ ई—वोटिंग") का उपयोग करके ईजीएम की सूचना मे निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। बुधवार, 20 नवंबर, 2024 ("कट—ऑफ तिथि") को सदस्य के होल्डिंग शेयर चाहे भौतिक रूप में हों या डीमैट रूप में, https://instavote.linkintime.co.in/ के माध्यम से लिंक इनटाइम की रिमोट ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि के अनसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट—ऑफ तिथि को कंपनी की कुल वोटिंग पूंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे। इसके अलावा, कोई व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से

लेना चाहिए। पप. रिमोट ई—वोटिंग अवधि रविवार, 24 नवंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और मंगलवार, 26 नवंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद लिंक इनटाइम द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें संशोधन नहीं कर सकता।

पपप. मतदान के तरीके से संबंधित सूचना और अनुदेश, जिसमें डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और उन सदस्यों वे लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, ईजीएम की सूचना में और लिंक इनटाइम द्वारा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में प्रदान किए गए हैं।

जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईजीएम सूचना भेजे जाने के बाद और कट—ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 से पहले शेयर हासिल किए हैं, वे कंपनी को लिंक investors@e2enetworks.com enotices@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

- iv- वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वे पात्र होंगे, हालांकि वे ईजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें ईजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से इ ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। vi- ईजीएम की सूचना वेब—लिंक इन्वेस्टर (e2enetworks.com) पर भी उपलब्ध है।
- vii- कंपनी के निदेशक मंडल ने ई—वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री अंकुश अग्रवाल, (सदस्यता संख्या एफ9719 और सीओपी संख्या 14486), एमएकेएस एंड कंप. के भागीदार, कंपनी सचिव (एफआरएन पी2018यूपी067700) को जांचकर्ता नियुक्त किया है।
- viii- रिमोट ई—वोटिंग और ईजीएम में ई—वोटिंग से संबंधित मुद्दों और चिंताओं सहित किस भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरघारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग ... उपयोगकर्ता https://instavote.linkintime.co.in/ के डाउनलोड अनुभाग में देख सकर्ते हैं या श्री विशाल दीक्षित, टीम सदस्य, लिंक इनटाइम, चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमाला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी instameet@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्यगण

कंपनी सचिव को cs@e2enetworks.com पर भी लिख सकते हैं। रोयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे ईजीएम में शामिल होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वोट डालने के तरीके आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईजीएम सूचना में दिए गए नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

दिनाँक : 5 नवंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली

कृते ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड रोनित गाबा कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालय/शाखाः ९बी, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड -110 060 पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच- 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजीसराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी-221 105

सार्वजनिक सूचना

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण कुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्मुगतान में विफल रहे है और ऋण को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (सुरक्षा) हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके द्वारा बैंक को प्रदान किए गए उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, जो इसके अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए थे।उक्त उधारकर्ताओं की जानकारी नीचे दी गई है, उक्त उधारकर्ताओं को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	लखनऊ	खाते का नाम	उधारकर्ता / गारंटर का नाम (संपत्ति का मालिक)	एन.पी. ए. की तिथि	मांग सूचना की तिथि पर बकाया राशि
	तखनक पूसा रोड	खात का नाम शिवा रबर एंड केमिकल्स खाता संख्या 138606000 0006055	मालिक) मेसर्स शिव रबर एंड केमिकल्स इसके प्रोपराइटर (उधारकर्ता) श्री राकेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री ज्ञानेंद्र शर्मा (उधारकर्ता) श्री शशांक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—आवेदक/गारंटर) श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता) श्री		
			तनुज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (गारंटर) मेसर्स शिव कंक्रीट उद्योग इसके प्रोपराइटर (सह–आवेदक) के माध्यम से		

संपत्ति / संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या G1-245 पर स्थित वह समस्त आंशिक व्यावसायिक संपत्ति. जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। रीको औद्योगिक क्षेत्र खुश खेड़ा तहसील–तिजारा जिला–अलवर राजस्थान में संपत्ति की सीमाएँ– पूर्वः प्लॉट संख्या–246 उत्तरः अन्य संपत्ति पश्चिमः प्लॉट

2	नजफगढ़	देवेंद्र कुमार	श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री रघुवर	03/10/2024	₹ 44,94,245/-
		खाता संख्या	दयाल (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री		
		135906000	विशांत कुमार पुत्र श्री रघुवर दयाल		
		0006048	(सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) सुश्री		
			प्रीति कुमारी पत्नी श्री देवेंद्र कुमार		
			(सह–उधारकर्ता)		

संपत्ति / संपत्तियों का विवरणः खसरा संख्या—614 के अंतर्गत आने वाले 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फ्री होल्ड आवासीय भुखंड संख्या–237 का वह पूरा हिस्सा, जो गांव–धरौती खुर्द, डी–ब्लॉक, लक्ष्मी गार्डन, परगना–लोनी, जिला– गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102 की आबादी में स्थित है। संपत्ति की सीमा–पूर्वः सड़क उत्तरः रामू बाबू की संपत्ति पश्चिमः सड़क दक्षिणः माधो

उपरोक्त उधारकर्ता / ओं और / या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भगतान करें. ऐसा न करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांकः 06/11/2024

अनिल कुमार शर्मा (प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड।

VAGHANI TECHNO-BUILD LIMITED

Registered Office: 903 & 904, 9th Floor, Krushal Commercial Tower, Ghatkopar-Mahul Road, Chembur (West), Mumbai-400089, Maharashtra Tel: +91 22 31008500; Email: investor@vaghanitechnobuild.com, Website: www.vaghanitechnobuild.com; Corporate Identification Number: L74999MH1994PLC187866;

Recommendations of the Committee of Independent Directors (the "IDC") of Vaghani Techno-Build Limited (the "Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations, 2011") in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company made by Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") (Hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 collectively referred to as

1	Date of Meeting	November 05, 2024
2	Name of the Target Company	Vaghani Techno-Build Limited
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirers in terms of Regulations 3(1) & 4 the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 13,57,200 (Thirtee Lakh Fiffy Seven Thousand and Two Hundred) fully paid-up equity shares of fac value of ₹10/- each (the "Equity Shares"), representing 26% of the Voting Shar Capital of the Target Company on a fully diluted basis from the eligib shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹11/- (Rupees Eleve only) per equity share ("Open Offer")
4	Name of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Acquirers: Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") There are no PAC(s) with the Acquirers for the purpose of the Open Offer.
5 Name of the Manager to the Offer		Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059; Tel. No.: +91 22 49730394 Email Id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance Id: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Contact Person: Sachin Prajapati/ Satej Darde
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC Members" or "Members of the IDC")	a) Mr. Rohan Mansukh Shah (DIN: 07490755) - Chairman and Member b) Mr. Bharat Laljee Shah (DIN: 06432795) – Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	 i. All IDC Members are Independent and Non -Executive directors on the Board the Target Company. ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity Shares other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as Directors of the Target Company, there are rother contracts or relationships with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/ other securities the Target Company during the: i. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA dated July 23, 2024; and ii. period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the members of the IDC have any contractual or any other relationsh with the Acquirers.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	"Not Applicable as the Acquirers are individuals."
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, a) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11/- per Equity Sha is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulation 2011; b) IDC Members believe that the Offer is in line with the SEBI (SAST) Regulation 2011 and the same is fair and reasonable. However, IDC members would li to draw the attention of the shareholders that, the Equity Shares of the Targ Company are trading on BSE at a price that is higher than the Offer Price; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer visvis current share price and take an informed decision before participating the Offer.
12	Summary of reasons for recommendation	 The IDC Members have reviewed: Public Announcement ("PA") dated July 23, 2024; Detailed Public Statement ("DPS") dated July 29, 2024 and was published July 30, 2024; Draft Letter of Offer ("DLOF") dated August 06, 2024; Letter of Offer ("LOF") dated October 28, 2024; The IDC members also noted that: The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in terms Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST)

trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11/ per equity share is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAST) Regulations, 2011. 13 Disclosure of voting pattern These recommendations were unanimously approved by the Members of the 4 Details of Independent Advisors, if any. None

Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated October 28, 2024. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

15 | Any other matter to be highlighted

Place : Mumbai

Date: November 05, 2024

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST)

c) The Offer Price is higher than the (i) negotiated price under the Share Purchase

Agreement executed on July 23, 2024, i.e. ₹ 7.50/- per Equity Share and (ii)

the price determined by the Acquirers and the Manager taking into account

valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable

Vaghani Techno-Build Limited Mr. Rohan Mansukh Shah Chairperson of IDC DIN: 07490755



भिवंडी मतदार संघात २ कोटी ३० लाख १७ हजार ६०० रुपयांची रोकड जप्त

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणी ४/११/२०२४ रोजी धामणकर नाका जवळ सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री. सचिन बापू सांगळे यांना मे. सीएमएस या कंपनीची रोख रक्कम घेवुन जाणारी गाडी क्र. एमएच ४३/हिपी/७९२० ही सायंकाळी संबंधीत गाडी चालकास गाडी रोख विचारणा केली असता सदर रोकड ही मे. सीएमएस या कंपनीची असल्याचे नमुद केले पण रक्कमेबाबत पुरावे व रोख रक्कम हाताळणी क्युआर कोड सादर करता आला नाही

निवडणुक निर्णय अधिकारी श्री सानप यांचेशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला. त्यांनी तात्काळ सबब माहिती एफएसटी पथक क्र. ६ या विभागात कार्यरत असलेले हेमंत पष्टे यांना

हेमंत पष्टे हे तत्काळ सहाय्यक पोलीस आयुक्त पूर्व विभाग, भिवंडी या कार्यालयात पथकासह हजर झाले. गाडी क्र. एमएच. ४३/व्हिपी/७९२० मध्ये एकुण २ गार्ड, २ कस्टुडीयन व



होते. तनंतर त्यांचे परवानगीने बॅगमधील व एटीएम मशिन मधील रोख रक्कमेची गणना

याबाबतची माहीती श्री.

आचारसंहिता पथक प्रमुख श्री. सुधीर गुरव व सहाय्यक खर्च निरीक्षक श्री. शरद यादव यांचे मार्गदर्शनाखाली सदर पंचनामा

आहेत. त्यानंतर पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती १३७ निर्णयअधिकारी अमित सानप

राज्यात ८५ वर्षांवरील १२ लाखांहून अधिक मतदार

९१९ मतदार असल्याची माहिती मुख्य

निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत

हजार ११९ मतदार असून यामध्ये ८५

वर्षांवरील मतदारांची संख्या १२ लाखांहून

अधिक आहे. या वयोगटात एकुण १२

लाख ४० हजार ९१९ मतदार आहेत.

विशेष म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत महिला

राज्यात एकूण ९ कोटी ७० लाख २५

राज्यात येत्या २० नोव्हेंबर रोजी ४२ हजार ८९१ पुरुष मतदार तर ६ लाख विधानसभेसाठी निवडणूक होत आहे. या ९८ हजार २२ महिला मतदार आणि ६ निवडणुकीत ८५ वर्षांहुन अधिक तृतीयपंथी मतदार आहेत. वयोगटामधील एकूण १२ लाख ४० हजार

वयोगटात सर्वाधिक १ लाख २१ हजार ७६० मतदार आहेत. ज्यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ५९ हजार २९७ तर महिला ६२ हजार ४६० आणि ३ तृतीयपंथी मतदार आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ९२ हजार ८७५ मतदारांमध्ये ४८ हजार २९२ पुरुष तर ४४ हजार ५८३ महिला मतदार आहेत. नाशिक जिल्ह्यामध्ये ८५

वर्षांवरील मतदारांची संख्या ६० हजार

canarabank.com मो. क्र. ८६५५९६३४६८, ९१९९०४१७१८०३

रूम क्र. बी/१, सेक्टर ९, नवी मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ७०३ तसेच श्री. अनिल गणपत निमान, श्री. गणपत गणु निमान यांचा मुलगा राहणार फ्लॅट क्र. २०७, २ रा मजला, एसवाय. क्र. ३०० खाटा क्र. २, बिल्डींग सिद्धीविनायक रेसिडन्सी

विषय : सीक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेटस ॲन्ड एन्फोर्समेट ऑफ सीक्यरिटी इंटरेस

अधोहस्ताक्षरित हे **कॅनरा बँक, उसगाव शाखा (१५५०३) शाखा, महाराष्ट्र** यांचे (यापुढे **प्रतिभूत धनको** म्हणून संदर्भित

तुम्हाला सर्वांना सूचित करण्यात येते की, प्रतिभृत धनको यांना मागणी सूचना जारी केली होती ती ॲक्टच्या अनुच्छेर १३(२) अंतर्गत दि. १२.०३.२०२४ अनुसार केली होती, कर्जदार **श्री. अनिल गणपत निमान,** यांच्या अनुसार मागर्ण

सूचना अनुसार प्रदान रक्कम रु. ३०,३६,९८३.७२/ – (रु. तीस लाख छत्तीस हजार नउग्ने च्याएँशी व बाहत्तर पैसे मात्र) व हितसंबंध अहबालीत अनुसार सदर सूचनेच्या स्विकृत तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सूचित करावे.

तेव्हापासून, कर्जदार <mark>श्री. अनिल गणपत निमान</mark> यांनी वरील सदर मागणी सूचनेमध्ये निर्देशित रक्कमेचे प्रदान करण्यास कसू केली असल्याने प्राधिकृत अधिकारी **प्रतिकात्मक ताबा** अनुसार प्रतिभूत मालमत्ता अनुसार **ताबा सूचना** दि. **१७.०८.२०२४**

रोजी जारी केले. पढे. सदर प्रतिकात्मक ताबा दि फायनान्शीअल एक्सप्रेस व दैनिक सागर वत्तपत्र १९.०८.२०२४ अनस

सरफैसी कायदा. २००२ च्या तरतदी अनपालन व सरफैसी नियमाच्या नियम ८/६) सहवाचन तम्हाला सर्वांना यादां

मूचित करण्यात येते की, अंतिम व गत संधी प्रतिभूत धनको यांचा ताबा घेउन कपात करण्यात येत आहे व सदर सूचनेच्य स्विकती पासन ३० दिवसांच्या आत करावा, दायित्व असलेले **रु. ३१,८०,४६७.२२/– (रु. एकतीस लाख ऐंशी हजा**

विक्री सूचना अनुसार ॲक्ट अंतर्गत वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध केली होती व खालील अनुसार खालील निर्देशित अनुसार प्रतिभूत

जे तत्सम प्रकारच्या मालमत्तांसह व्यवहार करत आहेत त्यांना प्राप्त देकार वा अन्य डच्छक असलेले खरेदी केलेलं

कायद्याचे अनुच्छेद १३ (८) च्या तरतुदीअंतर्गत उपलब्ध कालावधीमध्ये प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी कर्जदारांचे लक्ष वेधून घेण्यात येत आहे अन्यथा तुमचे हक्ष अनुच्छेद १३(८) अंतर्गत गहाण मालमत्ता म्हणून कपात केले जातील.

जाहीर अधिसूचना

सदर सूचना ॲक्ट/ वा कोणाही अन्य कायद्याच्या अंतर्गत प्रतिभूत धनको यांना अधिकार उपलब्ध आहे.

मालमत्ता : वा २. आम जनतेकडून निविदा मागवीणे वा ३. ई-लिलाव मोड मार्फत सार्वजनिक लिलाव आयोजित करणे वा ४. खाजगी आधारावर

ॲक्ट, २००२ (यापुढे ॲक्ट म्हणून संदर्भित) च्या अनुच्छेद १३(८) अंतर्गत कपात हक्कांचे अधिकार बजाव

म्हणून ज्ञात, गाव पेण, तालुका पेण, जिल्हा रायगड, महाराष्ट्र ४०२ १०७

४२९ पुरुष आणि ३४ हजार ८४९ महिल मतदार आहेत. ८५ वर्षांवरील सर्वात कमी मतदार गडचिरोली जिल्ह्यात असून येथील एकुण ६ हजार ६१३ मतदारांमध्ये २ हजार ५५७ पुरुष तर ४ हजार ५६ महिला

राज्यात ८५ वर्षांवरील तृतीयपंथी मतदारांची एकूण संख्या ६ असून यामध्ये ३ मतदार पुणे जिल्ह्यात आणि मुंबई शहर, सातारा तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकी एक मतदार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra ॲक. ड्यु सह नोंदणीकृत पोस्ट A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING

कल्याण, ठाणे ४२१ ३०१. दूर. ०२५१-२२११९२५/२२१३०५४ ई-मेल : bom15@mahabank.co.in

सीक्यरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शीअल असेटस ॲन्ड एन्फोर्समेट ऑफ सीक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट. २००२ (सरफैसी कायदा) यांच्या अनच्छेद १३(२ सहवाचन सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेट) नियम, २००२ च्या नियम ३(१) अंतर्गत सूचना)

बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यासह खालील निर्देशित कर्जदार यांचे खाते एनपीए म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहेत, बँकेने खालील निर्देशित तारखेस सरफैसी कायद्याच्य अनच्छेद १३(२) अंतर्गत सचना जारी केली होती. सदर सचना खालील निर्देशित कर्जदार/ हमीदार यांना त्यांच्या अंतिम ज्ञात पत्त्यावर पाठविली होती ती त्यांन नळाली नाही आहे, सदर जाहीर सूचना सर्व संबंधितांना माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात आली होती. बालील निर्देशित कर्जदार/ हमीदार यांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र यांना ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत खालील नमूद रक्कम जी आपल्याकडे संबंधित तारखेला येणे आहे अधिक त्यावरील त्यापढे विहित करण्यात आलेल्या दराने संपूर्ण रक्कम प्रदान होईपर्यंत, कर्ज/ अन्य . फरारनामा यांच्या अनुसार जी कागदपत्रे आपण निष्पादित केली आहेत त्यांच्या अनुसार अदा कराबी. सदरील करारनामा अनुसार कर्जदार यांच्या सुरक्षेसाठी मालमत्त

<mark>२. श्री. मनोज मारूती काळे,</mark> घर क्र. १४५० बी, माता नगर, मुरबाड, कासेगाव, ठाणे, महाराष्ट्र ४२१ ४०१

शाखा नाव : शिवाजी चौंक – कल्याण मख्य शाखा

यांच्या नावांच्या समोर निर्देशित करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचा भार आहे

एनपीए तारीखा २९.०९.२०२४

मालमत्ता विवरण/ प्रभारित मालमत्ता : प्रायमरी प्रतिभूती : स्टॉक व बुक डेब्ट्सचे तारणगहाण **ध्याची थकवाकी मागणी सूचना अनुसार : रु. ७३,२९,५१०.००** अधिक त्यावरील व्याज १०.८०% द. सा. दराने रोख पत सुविधा दि. ३०.०९.२०२४ अनुसार सदर सूचनेच

पत सुविधा स्वरूप व रक्कम : रोख पत - मंजूर रक्कम रु. ७०,००,०००/- खाते क्र. ६०४६२३७४०५३

थकबाकी लेडजर उर्वरित - रु. ६९,९९,९६०.७६/- अलागू व्याज - रु. ३,२९,५४९.२४/-

(दि. २९.०९.२०२४ अनुसार) एकूण : रु. ७३,२९,५१०.००/-जर संबंधित कर्जदार/ हमीदार यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे प्रदान करण्यास कसूर केल्यास, बॅक ऑफ महाराष्ट्र सदर ॲक्टच्या अनुच्छेद १३(४) अंतर्गत वरीर

प्रतिभृत मालमतेच्या संबंधात प्रक्रिया करण्याचे अधिकारी असतील व संबंधित कर्जदार/ हमीदार यांच्या मूल्य व जबाबदारी वर लागू असेल सरफैसी कायद्याच्या तरतूदी अंतर्गत, संबंधित कर्जदार/ हमीदार यांनी सदर वरील मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याकरिता बॅक ऑफ महाराष्ट यांना लेखी स्वरूपा

पर्व सचना द्यावी अन्यथा ते विक्री. भाडेकरार करू शकणार नाहीत. कोणतेही सदर सरफैसी कायदा यांच्यासह लागू दंड व/वा पेनल्टी यांच्याकरिता संबंधित व्यक्त

अधिक माहितीकरिता सूचनादारांनी अधोहस्ताक्षरित यांच्याकडून न मिळालेली सूचना प्राप्त करावी.

मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या दिवाळी अंक प्रदर्शनाचे उद्घाटन उत्साहात संपन्न

मुंबई, दि. ०५ (प्रतिनिधी) : मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित दिवाळी अंक प्रदर्शनाचे उद्घाटन मंगळवारी दुपारी लोककलेचे गाढे अभ्यासक डॉ. प्रकाश खांडगे यांच्या हस्ते आणि जपानमधील पहिले मराठी आमदार श्री. योगेंद्र पुराणिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अतिशय कौटुंबिक वातावरणात उत्साहात संपन्न झाले.

मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकार दर्पण दिवाळी अंक २०२४ चे प्रकाशनही या वेळी करण्यात आले. महाराष्ट्राला दर्जेदार दिवाळी अंकांची परंपरा आहे. ही परंपरा सातत्याने जपण्याचे कार्य मुंबई मराठी पत्रकार संघ अतिशय चांगल्या प्रकारे करीत आहे. दिवाळी अंक प्रदर्शनात उत्तमोत्तम अंक आपल्याला इथे पहायला मिळतात, अशा शुभेच्छा या वेळी

डॉ. प्रकाश खांडगे यांनी दिल्या. मुंबई संघाचा पत्रकार दर्पण हा दीपावली विशेषांक सुद्धा अत्यंत दर्जेदार असल्याची प्रशंस त्यांनी केली

श्री योगेंद्र पुराणिक यांच्या पत्रकार दर्पण दिवाळी अंक आता थेट जपानमध्ये पोहोचणार असल्याने ही एक आनंददायी बाब आहे, असे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी सांगितले प्रकाश सावंत आणि शैलेंद्र शिर्के हे मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे सदस्य अनुक्रमे नवशक्ति आणि पण्यनगरी चे संपादक झाले ही पत्रकार संघाच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले. सर्वांनी या दोन्ही

मनःपूर्वक अभिनंदन केले. योगेंद्र पुराणिक यांनी या समारंभाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. पत्रकार संघाचे कार्यवाह शैलैंद्र शिर्के, प्रकाश सावंत, विश्वस्त राही भिडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. हे प्रदर्शन ९

नोव्हेंबरपर्यंत

सकाळी ११ ते

कालावधीत

खुले असेल.

संध्याकाळी ७ या

साहित्यप्रेमींसाठी

संपादकांचे

मुलाची जबाबदारी नाकारणे आम जनतेस याद्वारे सूचित करण्यात येते की. र्म

फ्लॅट क्र. ए/१०३. बागेश्री अपार्टमेंट, सोसायटी बागेश्री को-ऑप. हा. सो. लि. म्हणून ज्ञात, भाईंदर फाटक रोड गीता नगर, भाईंदर पश्चिम, ठाणे ४०१ १०१ येथील मालमत्तेचे मालक आहेत व मी सद्धा फ्लॅट क्र. बी=०४ को=ऑप हा सो लि. ए के वैद्य मार्ग गोरेगाव पर्व परिपूर्ण मालक आहेत. मी याद्वारे घोषित करत आहे की. माझी मुलगी **श्रीम. प्राजक्ता तन्मय बर्वे (पूर्वीचे नाव** श्री. तन्मय शिरीष बर्वे यांनी माझ्याशी भांडण केले व मला बाईट शब्द उच्चारले, तसेच त्यांनी मला मारले सुद्धा पाड्या व माझ्या मलाच्या विरोधात खोटी पोलीस एन.सी तक्रार दाखल केली, त्यामुळे मी माझ्या सदर मुलगी श्रीम. प्राजक्ता तन्मय बर्वे व तीचे पती श्री. तन्मय शिरीष बर्वे व त्यांची दोन्ही मूल अर्थात मास्टर लक्ष तन्मय बर्वे व र. मास्टर मिहीर तन्मय बर्वे यांच्यासह नाते संबंधत तोडत आहेत व माझ्या दोन्ही स्थावर व जंगम मालमत्त ॲन्सेस्ट्रल मालमत्ता, बँक खाते, सोने, चांदी, फिक्स्ड डिपॉझिट आदी मधून त्यांना बेदखल करत आहे, माझे वरील सदर मुलगी व तीचे कुटंबातील सभासद यांना माझ्या अधिकार नाही आहेत व जर कोणीही मादया सटर मलर्ग श्रीम. प्राजक्ता तन्मय बर्वे व तीचे पती श्री. तन्मय शिरीष बर्वे व त्यांची दोन्ही मुल अर्थात मास्टर लक्ष तन्मय बर्वे व २. मास्टर मिहीर तन्मय बर्वे यांच्यासह वा कोणत्याही त्यांचे भविष्यातील कायदेशीर वारस यांच्यासह व्यवहार केल्यास ते स्वत:च्या जबाबदारीवर करावे व मी त्याकरिता जबाबदा-नसेन, व्यवहार वा व्यवसाय माझ्या वरील सदर मुलगी तीच्या कौटंबीक सभासद यांच्यासह केल्यास तम्ही स्वत जबाबदार असाल माझे माझी मलगी व तीचे कटंब यांच्यासह माझ्या मालमत्तेमध्ये कोणतेही हक्क नाहीत व माझ्या मृत्यूनंतर तीला कोणताही खटला माझ्या कोणत्यार्ह स्थावर व जंगम मालमत्ता वा माझ्या ॲन्सेस्टल मालमत्तेमधील माझे शेअर यामध्ये तीचा काहीही अधिका दि. ०६.११.२०२४

दिगंबर शिवराम पेडणेकर

जाहीर सूचना नूचना याद्वारे देण्यात येते की, श्रीम. **ईला दिपक पंडित** य क. यात्री दिपक पंडित (मुलगी) यांच्यासह फ्लॅट क्र. ४०५ बी विंग, मोजमापित अंदाजे २८० चौ. फूट (बिल्ट अप) क्षेत्रफळ, चौंथा मजला, बिल्डींग शिवमती को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड म्हणून ज्ञात, नोंदणीकरण ह. टीएनए/एचएसजी/टीसी/६७६९/१९९३-९४ संबंधात सह-मालक आहेत, शेअर प्रमाणपत्र क्र. २८ विभिन्न शेअर १३६ ते १४० असून पोलीस स्टेशन, उत्तन रोड, महसूल गाव भाईंदर, भाईंदर (पश्चिम), तालुका व जिल्हा ठाणे ४०१ १०६ येथील मालमत्तेचे सह–मालक आहेत. सदर करा १. मे. शिव–माती बिल्डर्स व श्री. सुहास यशवंत नारगोलक यांच्या दरम्यान करार दि. ०६ ऑक्टोबर. १९८५ रोर्ज अंमलात आणले (बिल्डर करार), २. श्री. सुहास यशवंत नारगोलकर व श्री. परमानंद चिरंजीलाल अगरवाल यांच्य रम्यान विक्री करार दि. ३१.१२.१९९६ (पुन:विक्री करार) अंमलात आणले, ३. श्री. परमानंद चिरंजीलाल अगरवाल : श्री. निकंज नरेंद्र पांड्या व श्रीम. ईला पंडित यांच्या दरम्या ने नोंदणीकत घोषणा करार दि. ०८.१२.२००८ रोजी उप निबंधक हमी यांच्या कार्यालयामध्ये ठाणे जिल्हा येथे इस्तावेज सिरीयल क्र. टीएनएन-४/१०३५९/२००८ दि. ०८.१२.२००८ (पुराविक्री करार) अंमलात आणले, ४. श्री. निकुंज नरेंद्र पांड्या यांनी त्यांचे पीओए श्रीम. ईला दिपक पंडित यांच्या मार्फत त्यांचे ५०%

क्र. टीएनएन-७/३३६१/२०१२ दि. ०७.०५.२०१२ (पुन:विक्री करार) आहेत. सदर मूळ पहिले बिल्डर करार गहाळ/ हरवले आहेत व तसेच पोलीस तक्रा दि. ३१.१०.२०२४ रोजी गह क्र. ३५२८१-२०२४ अंतर्गत दाखल केली. कोणाही व्यक्तीस, बॅक्स, वित्तीय संस्था, वैयक्तिक, कंपन संस्था आदी यांना दस्तावेज पुरावे यांच्यासह लेखी स्वरूपात कोणतेही दावे वा आक्षेप असल्यास कोणतेही दावे असल्या तारखेपासन १४ दिवसांच्या आत खालील निर्देशित पत्याव

दिपक पंडित यांना विक्री करार मार्फत ०७.०५.२०१२ रोर्ज

विक्री केले. हमीच्या उप निबंधक कार्यालयामध्ये नोंदणीकृत करून ठाणे जिल्हा येथे दस्तावेज सिरीयल

जाणार नाहीत याची कृपया नोद घ्यावी. (वकील उच्च न्यायालय बी/१०९, भाईद्या नगर, बी बिल्डीग, नवघर रोड, भाईँद (पू), जिल्हा ठाणे ४०१ १०५

लेखी स्वरूपात सूचित करावे अन्यथा कोणत्याही व्यक्तीचे दावे काही असल्यास सदर फ्लॅट जागेच्या संबंधात तर गृहित धरले

दावे असल्यास तसेच कायदेशीररित्या व समतल्य रित्या मयत जीतभाई रमणीकलाल जानी व हर्षांबेन श्री. के . आर. पांडे यांना भंडारकर भवन, कोर्ट लेन, बोरिवली (प) मुंबई ४०० ०९२ येथे पुराव्यांसह **१५** (पंधरा) दिवसांच्या आत सचित करावे अन्यथा कोणतेही दावे गृहित धरले जाणार नाहीत व कोणतेही

वकील श्री. के. आर. पांडे ठिकाण : मुंबई

श्री. जित्रभाई रमणीकलाल जानी हे माझे अशील गौरंग जे. जानी यांचे वडील असून त्यांच्या आयुष्यात फ्लॅट क. ए/१०४, १ ला मजला, लावण्या अपार्टमेंट, प्लॉट क्र . ८७ए, प्रोफ. व्ही. एस. आगाशे मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई ४०० ०२८ येथील मालमत्त्तेचे मालक होते व शेअर प्रमाणपत्र क . ००९, विभिन्न क . ४१ ते ४५ (दोन्ही समाविष्ट) धारक आहेत व सदर **जीतुभाई रमणीकलाल जा**नी यांचा मृत्यू दि. ०७.१२.२०१४ रोजी झाला (व सदर जीतुभाई रमणीकलाल जानी हे जीतेंद्र अर्थात **जीतेंद्रप्रसाद)** व त्यांची पत्नी **हर्षाबेन जे. जानी** यांचा मृत्यू दि. ०४.०८.२०१२ रोजी झाला होता व अधिकारी आहेत व मयत यांच्या अनुसार सदर फ्लॅर संबंधात व जीतभाई रमणीकलाल जानी यांच्या मत्यनंतर सोसायटी माझे अशील यांच्या नावे शेअर प्रमाणपत्र करत आहे, याद्वारे माझे अशील हे सदर म्लॅटचे मालक व परिपूर्ण मालक आहेत तसेच सद**्**

याद्वारे देण्यात जर कोणाही व्यक्तीस सदर फ्लॅट संबंधात कोणतेही

दि. ०६.११.२०२४

श्रीम. अर्चना ललित पालवे १. ऋणकोचे नाव ठॉलनी, गंगापूर रोड <u>नाशिक ४२२ ०९३ महारा</u>ह् एनसीएलटी आदेश दि. ३०.१०.२०२४ रोजी दिला आहे सीपी (आयबी) क्र. १०४१/एमबी/२०२३

श्रीम, अर्चना लिलत पालवे यांच्या प्रकरणात, कार्मिक हमीदा क्रिएटिव्ह पावरटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दिवाळखोरी कर्जबाजारीपणा कोड २०१६ च्या अनुच्छेद (कोड) सहवाच दिवाळखोरी व कर्जबाजारीपणा (दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिय यांच्याकरिता कार्मिक हमीदार यांच्याकरिता कॉर्पोरेट ऋणक च्याकरिता लागू अर्ज) नियम, २०१९ अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया सुरुवा

तारीख ठराव विशेषज्ञ म्हणून दिवाळखोरी आयबीबीआय/आयपीए-००१ यांचे नाव व नोंदणीकरण क्रमांक भायपी**–**पी००६६२/२०१७**–**२०१८/१११३१ श्री. वाकटी बालासुब्रमण्यम रेड्डी

मंडळासह नोंटणीकरण सी १२०५, गॅलक्सी, कुरेशी नगर, कुर्ला (पू), मुंबई नहाराष्ट्र ४०० ०७० ईमेल : vbsreddy7@gmail.com ठराव विशेषज्ञ यांच्यासह संबंधितांका सी १२०५. गॅलक्सी. करेशी नगर, कुर्ला (पू), मुंबई महाराष्ट्र ४०० ०७ बापरात असलेला पत्ता व ई-मेल मिल : vbsreddy7@gmail.com

. रोजी दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या अनुसार आहे. श्री**म. अर्चना ललित पालवे** यांचे धनको यांनी याद्वारे त्यांचे दावे दि. २७ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी ठराव विशेषज्ञ यांना एन्ट्री क्र. ७ संबंधात खालील पत्यावर सूचित करावे वित्तीय धनको यांनी त्यांचे दावे व पुरावे ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात केवळ सादर करावे. सर्व अन्य धनको यांनी त्यांचे दावे _{ञ्यक्तीश:} पुरावे यांच्यासह पोस्ट वा ईलेक्ट्रॉनिक मीन्स मार्फत सादर करावे

दाव्यांचे चुकीचे सादरीकरण वा अफवा असल्यास नियम अनुसार दंड आकारण्यात येईल

सही/-नोंदणीकरण क्र.: आयबीबीआय/ आयपीए-००१/आयपी-पी००६६२/२०१७-२०१८/१११३ – श्रीम. अर्चना ललित पालवे दि. ०६.११.२०२४ ठिकाण : मुंबई

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

SCAN STEELS LIMITED

CIN: L27209MH1994PLC076015

Reg. Off: Office No. 104, 105, E-Square, Subhash Road, Vile Parle(East), Mumbai-400057
Telephone: +91-022-26185461; Email: scansteels@scansteels.com

STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER,2024 (Amount INR (In Lacs), except earning per share data Half Year Ended Quarter ended

ı							rear Ended
SI	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	14,136.80	23,533.87	26,186.33	37,670.67	48,966.39	96,743.05
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(194.01)	1,963.07	489.77	1,769.07	1,087.47	2,415.63
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(194.01)	1,963.07	489.77	1,769.07	1,087.47	2,415.63
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(134.69)	1,456.96	333.88	1,322.28	804.73	1,773.01
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	(238.34)	1,424.33	371.72	1,186.00	894.37	1,959.30
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	5,235.23	5,235.23	5,235.23	5,235.23	5,235.23	5,235.23
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)						34,099.45
8	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annulized) (Before and after Extraordinary Items)						
	Basic	(0.25)	2.78	0.64	2.53	1.54	3.39
	Diluted	(0.22)	2.49	0.64	2.26	1.54	3.37
	Consolidated Unaudited Financial Res	ults for the (Quarter and F	lalf Year End	ed 30th Sep	tember,2024	, and the second

Half Voor Ended Quarter ended Year Ende 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Net Profit/ (Loss) for the period (before tax 1.969.67 1.774.3 1.087.47 2.415.93 Exceptional and/or Extraordinary items) (195.32)489.77 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1.964.8 1.821.6 2.748.07 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (83.91) (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,458.75 333.88 1,374.85 804.73 2,105.44 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]
Paid up Equity Share Capital (187.57)1.238.56 894.37 1,426,13 371.72 2,291.74 5.235.2 (Face value of Rs. 10/- each) 5,235.23 5,235.23 Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) 34,431.89 not annulized) (Before and after Extraordinary Iter

Diluted

Tuesday, November 05, 2024

The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 05, 2024. The statutory auditors have carried out a Limited Review of the results for the quarter and half year ende

2.49

The figures for the guarter ended September 30,2024 are balancing figures between the Un audited figures of the half year ended septemb 30, 2024 and published figures of three months ended June 30, 2024. The company has investment in two private limited companies and one limited liability partnership (LLP) firm respectively, being associated

group holdings. For the purpose of consolidated Financial Statements, the parent company has incorporated share of profit/(loss) of these associate companies based on management certified accounts being prepared on applicable Ind As. The Company is engaged in only one segment viz. Steel Manufacturing and as such there is no separate reportable segment as per IND AS

Figures for the previous periods have been regrouped, rearranged and/or reclassified to confirm to the classification of the current period wherever necessary. Also the figures of additions and/or subtractions have been rounded up/off automatically for reporting at INR in lakhs.

3 The above results are available on the Company's website at www.scansteels.com and BSE website at www.bseindia.com For Scan Steels Limited

Ankur Madaan DIN: 07002199

4.00

VAGHANI TECHNO-BUILD LIMITED Mumbai-400089, Maharashtra Tel: +91 22 31008500; Email: investor@vaghanitechnob Recommendations of the Committee of Independent Directors (the "**IDC**") of Vaghani Techno-Build Limited (the "**Targe**

Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations, 2011") in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company made by Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") (Hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 collectively referred to as

	1	Date of Meeting	November 05, 2024
	2	Name of the Target Company	Vaghani Techno-Build Limited
	3	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirers in terms of Regulations 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 13,57,200 (Thirteen Lakh Fifty Seven Thousand and Two Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- each (the "Equity Shares"), representing 26% of the Voting Share Capital of the Target Company on a fully diluted basis from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹11/- (Rupees Eleven only) per equity share ("Open Offer")
	4	Name of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Acquirers: Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") There are no PAC(s) with the Acquirers for the purpose of the Open Offer.
	5	Name of the Manager to the Offer	Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059; Tel. No.: +91 22 49730394 Email Id: openoffers@saffronadvisor.com

Website: www.saffronadvisor.com

Members of the Committee of a) Mr. Rohan Mansukh Shah (DIN: 07490755) - Chairman and Member Independent Directors ("IDC b) Mr. Bharat Laljee Shah (DIN: 06432795) - Member Members" or "Members of the IDC"

IDC Member's relationship with the . All IDC Members are Independent and Non -Executive directors on the Board of Target Company (Director, Equity the Target Company. shares owned, any other contract/ ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity Shares or relationship), if any

SEBI Registration Number: INM000011211

Contact Person: Sachin Prajapati/ Satej Darde

securities of the Target Company by IDC | the Target Company during the: Members

other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as Directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company. 8 Trading in the Equity shares/other None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/other securities of

Investor Grievance Id: investorgrievance@saffronadvisor.com

9 IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares

. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA" dated July 23, 2024; and ii. period from the date of the PA till the date of this recommendation.

owned, any other contract / relationship), if any 10 Trading in the Equity shares/other "Not Applicable as the Acquirers are individuals." securities of the Acquirers by IDC

None of the members of the IDC have any contractual or any other relationship

Members Recommendation on the Open offer, as Based on the review.

to whether the offer, is or is not, fair and a) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹11/- per Equity Share

reasonable

is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations b) IDC Members believe that the Offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations.

2011 and the same is fair and reasonable. However, IDC members would like to draw the attention of the shareholders that, the Equity Shares of the Target Company are trading on BSE at a price that is higher than the Offer Price; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis-àvis current share price and take an informed decision before participating in 1. The IDC Members have reviewed:

12 Summary of reasons for a) Public Announcement ("PA") dated July 23, 2024: b) Detailed Public Statement ("DPS") dated July 29, 2024 and was published on July 30, 2024; c) Draft Letter of Offer ("DLOF") dated August 06, 2024;

d) Letter of Offer ("LOF") dated October 28, 2024;

2. The IDC members also noted that:

a) The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in terms of Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. 2011.

b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

c) The Offer Price is higher than the (i) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on July 23, 2024, i.e. ₹ 7.50/- per Equity Share and (ii) the price determined by the Acquirers and the Manager taking into account

valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹11/

per equity share is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAST Regulations, 2011. These recommendations were unanimously approved by the Members of the

14 Details of Independent Advisors, if any. 15 Any other matter to be highlighted None Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated October 28, 2024.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement

is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011. For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Mr. Rohan Mansukh Shah Chairperson of IDC DIN: 07490755

Place : Mumbai Date: November 05, 2024

13 Disclosure of voting pattern